



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी, 2022

04 माघ, शक संवत्, 1943

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 47/वि0स0/संसदीय/55(सं)/2017

लखनऊ, दिनांक 24 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जिला हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र संख्या-156, हरदोई से निर्वाचित सदस्य, विधान सभा श्री नितिन अग्रवाल दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे;

और, चूंकि, श्री नितिन अग्रवाल का विधान सभा की सदस्यता से दिया गया त्याग-पत्र मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-190 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उनका स्थान दिनांक 19 जनवरी, 2022 के अपराह्न से रिक्त हो गया है;

और, चूंकि, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-179 के खण्ड (क) के अन्तर्गत श्री नितिन अग्रवाल द्वारा उपाध्यक्ष, विधान सभा का पद दिनांक 19 जनवरी, 2022 से त्याग दिये जाने के फलस्वरूप विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद दिनांक 19 जनवरी, 2022 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-179 के खण्ड (क) के अन्तर्गत विधान सभा में उपाध्यक्ष का पद दिनांक 19 जनवरी, 2022 के अपराह्न से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।